



2024-25





ANNUAL REPORT

UP VOLUNTARY HEALTH ASSOCIATION

WWW.UPVHA.ORG

To Make Health a Reality for All.





UTTAR PRADESH VOLUNTARY HEALTH ASSOCIATION



www.upvha.org

upvhalko@gmail.com

CONTACT NUMBER - 0522-4603434

5/459, VIRAM KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW




Table of Contents

01

KEY NOTES FROM THE ORGANISATION

PRESIDENT

SECRETARY

EXECUTIVE DIRECTOR

02

ABOUT US

VISION & MISSION

ORGANISATIONAL STRUCTURE

FOCUS AREAS

03

STATE LEVEL ACTIVITIES

04

DISTRICT LEVEL ACITIVITIES

05

MEDIA REPORTS & ORDERS

06

PHOTOGRAPHS



From the President



As we find ourselves in the year 2025, a time marked by the ongoing challenges posed by climate change, it serves as a poignant reminder of the unpredictability of life and the need for resilience in the face of adversity. We acknowledge that even the most meticulously laid plans may encounter obstacles, but our values, purpose, and unwavering commitment to the well-being of communities continue to guide us towards a better future.

It is with great pleasure that we present to you the Annual Report for the year 2024-2025, encapsulating the best practices and achievements of the Uttar Pradesh Voluntary Health Association (UPVHA) across its diverse projects. With a mission to promote quality healthcare and environmental sustainability. We are heartened to witness the tangible impact of our collective efforts in enhancing the health of individuals. UPVHA diligently utilizes its extensive network and collaborates with key stakeholders to safeguard the lives of vulnerable and marginalized communities. Our unwavering commitment to our mission and vision drives us forward, ensuring that no effort is spared in pursuing our goals.

I extend my heartfelt gratitude to the members of the governing board of UPVHA for their invaluable guidance and unwavering support. I also take this opportunity to express our sincere appreciation to the member organizations for their continuous support, which has been instrumental in successfully implementing all our programs. Furthermore, I extend our heartfelt thanks to Government of Uttar Pradesh,, State Tobacco Control Cell, Police Department, Panchayati Raj Department, Van Vibhag, the Ministry of Health and Family Welfare, the Government of Uttar Pradesh, UPSACS, Vital Strategies, and Ipass Development Foundation for their unwavering support. None of the achievements realized in the past year would have been possible without the unwavering dedication and tireless efforts of UPVHA's dedicated staff. The team's commitment to UPVHA's aspirations and mission has been exemplary, and their dedication remains the driving force behind our success.

Lastly, I would like to express my deepest gratitude to our donors, trustees, and the entire UPVHA team for their unwavering belief in our cause and their commitment to driving our philanthropic activities in a direction that ensures a sustainable and resilient future. Together, let us continue our journey towards a healthier and more prosperous society, empowering communities, and addressing the upcoming challenges.



PRESIDENT



From the Secretary



I would like to address the core principles that guide our organization, the Uttar Pradesh Voluntary Health Association (UPVHA), in our pursuit of holistic well-being. As the Secretary of UPVHA, I am proud to lead a team that upholds the principles of recognizing the interconnectedness of people, animals, plants, and the environment. At UPVHA, we have embraced this concept as the foundation of our work, enabling us to make a substantial impact on the communities we serve.

Our commitment to reaching every district stems from our belief in the transformative power of change. While health has always been our primary focus, we have expanded our efforts to include environmental initiatives. We understand the pivotal role a healthy environment plays in overall well-being and strive to promote sustainable practices and environmental conservation. Quality work is at the heart of UPVHA's endeavors. We set high standards for ourselves in every field we engage in, ensuring that our initiatives have a meaningful and lasting impact. Our ultimate vision is to benefit as many people as possible, creating positive change in their lives and the communities they inhabit.

I express my deepest gratitude to the entire team, volunteers, and partners who have contributed to our journey this far. It is through your unwavering dedication, passion, and collaboration that we have been able to achieve remarkable milestones. As we continue to evolve, let us remain committed to pushing boundaries, fostering innovation, and embracing collaboration to drive positive change. Thank you for your continued support and commitment to our shared mission. Together, we will make a lasting difference in the lives of individuals and communities.

Kalindi Tripathi

SECRETARY

From the Executive Director



I wish to underscore the importance of our mission and shed light on the continuous efforts we are making to improve community well-being. The Uttar Pradesh Voluntary Health Association (UPVHA) remains committed to advancing health awareness and ensuring access to quality healthcare services across the state.

As Executive Director of UPVHA, I strongly uphold the One Health approach, which highlights the deep connections between human health, animals, plants, and the environment. This holistic, cross-sectoral perspective forms the backbone of our initiatives, guiding us to address these interlinkages at local, regional, and state levels to achieve better health outcomes for all.

Our commitment extends across Uttar Pradesh, with a determination to reach every district and community where our work can make a difference. While health has always been our primary focus, UPVHA has broadened its efforts to embrace environmental causes as well. We recognize that a thriving environment is inseparable from human well-being, and we actively promote sustainability and conservation as part of our mission.

At UPVHA, we are dedicated to delivering impactful, high-quality work—whether it is improving healthcare access, conducting awareness campaigns, or implementing environmental programs. Our vision is clear: to create lasting positive change and to improve the lives of as many people as possible.

We sincerely thank the Government of Uttar Pradesh, the Ministry of Health and Family Welfare, the Department of Forests (Van Vibhag), UPSACS, Vital Strategies, and the Ipas Development Foundation for their continuous support. I also extend heartfelt gratitude to our dedicated team, volunteers, and partners whose efforts have been the driving force behind our achievements. Together, we have made notable progress, yet much remains to be done. Moving forward, let us continue to innovate, collaborate, and expand our reach to bring meaningful transformation to the communities we serve.

Vivek Awasthi

EXECUTIVE DIRECTOR

ABOUT US

Uttar Pradesh Voluntary Health Association (UPVHA) is a network of voluntary organizations working in the field of community health and development across the state. It was established as a non-profit secular organization registered under the Society Registration Act of 1860 in November 1985.

UPVHA works in collaboration with various partners in the field of health. The major focus issues are Reproductive and Child Health, Tobacco Control, Adolescent Reproductive Health, Women Empowerment, Safe Abortion, HIV/AIDS/STD/RTI, Nutritional Deficiency Disorder, Malaria, Tribal Health, ISM/TSM, Female Foeticide, Strengthening of PRI, Child Education, Geriatric Care, Climate Change Environmental Health, Gender Equity etc.

UPVHA has good strength in networking and has more than 83 NGO as partners working in the field of Education, Community Health, and Development in Uttar Pradesh. UPVHA has a good relationship with the state government and also provides support in state-level policy support and Implementation of NHM activities, Facilitation of IEC, Strengthening of partners CSOs, and Research & Documentation. The health department has nominated UPVHA in different State and district-level committees.



VISION


Let us Join Together to Make Health a Reality for All

MISSION

UPVHA will promote quality health care especially for the vulnerable (regionally determined) groups with their participation in activating the public health system in revitalizing /promoting healthy living practices by encouragement of social vigilance and by strengthening partnership among likeminded individuals, institutions and groups, and in this way build a community movement for health



ORGANISATIONAL STRUCTURE



FOCUS AREAS



NEONATAL HEALTH

MATERNAL HEALTH & CHILD SURVIVAL

NUTRITION & ARSH

**TB COMMUNICABLE & NON-
COMMUNICABLE**

CHILD EDUCATION

WOMEN EMPOWERMENT

SAFE ABORTION


WATER & SANITATION

ENVIRONMENT CONSERVATION

CLIMATE CHANGE

GERIATRIC CARE

TOBACCO CONTROL



TOBACCO FREE YOUTH CAMPAIGN 2.0 LAUNCH



The State Level Seminar on the Tobacco Free Youth Campaign 2.0 was held on the 10th of October 2024 at the Meeting Hall of K D Singh Babu Stadium, Lucknow. Tobacco Free Youth Campaign 2.0, emphasizes the need to engage the youth in the fight against tobacco consumption and its harmful effects on public health. The event was graced by several distinguished personalities, including:

- Mr. Brajesh Pathak, Honorable Deputy Chief Minister and Cabinet Minister, Medical Health and Family Welfare and Medical Education, Uttar Pradesh
- Dr. Brijesh Rathor, Director General Medical and Health Services, Uttar Pradesh
- Dr. Narendra Agrawal, Director General Family Welfare
- Dr. B P Singh Kalyani, Director of Health

The highlight of the seminar was the official launch of the Tobacco Free Youth Campaign 2.0 by Shri Brajesh Pathak, Honorable Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh. Along with this, two significant resources were unveiled: Tobacco Free Village Manual and the Health Workers Guide

Mr. Brajesh Pathak, Honorable Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, delivered an impactful speech, addressing the grave issue of tobacco consumption. He stated: "Tobacco is a curse on our society. Despite numerous rules and widespread awareness, we have not yet been able to eradicate it. Tobacco is a deadly addiction. People start using it under the influence of others and soon become dependent on it. Over time, their bodies become vulnerable to various diseases, such as cancer. I urge the youth to stay away from this harmful substance. Work hard, make your parents, your state, and the nation proud. "We must implement tobacco control guidelines more effectively. Let's create tobacco-free villages, tobacco-free neighbourhoods, and even tobacco-free cities. In closing, I extend my congratulations to everyone for the success of this important event."

A special segment of the event recognized 11 National Achievers in Sports as Anti-Tobacco Ambassadors. Shri Brajesh Pathak felicitated these athletes, honoring their commitment to excellence and promoting healthy, tobacco-free lifestyles.

The seminar proved to be a crucial step toward amplifying the Tobacco Free Youth Campaign, raising awareness, and engaging key stakeholders in making Uttar Pradesh a tobacco-free state. The launch of the campaign, combined with the resources provided, set the foundation for a sustainable movement targeting the younger generation to lead a healthier, tobacco-free life.



STATE LEVEL WORKING GROUP COMMITTEE MEETING



The State Level Working Group Committee Meeting of the National Tobacco Control Programme (NTCP) was organized on 28th August 2024, under the chairmanship of Dr. Brijesh Rathor, Director General, Medical & Health, Uttar Pradesh. The meeting brought together senior officials, program managers, and stakeholders to review progress, discuss challenges, and plan the way forward for strengthening tobacco control efforts in the state.

During the session, the committee discussed the current status of tobacco use in Uttar Pradesh, emphasizing the need for stronger enforcement of COTPA provisions, sustained awareness campaigns, and effective implementation of tobacco-free educational institutions (ToFEI). Deliberations also focused on integrating tobacco cessation services at the primary healthcare level and ensuring convergence with other national health programs, including TB and mental health initiatives.

Key presentations highlighted the progress made by various districts, the role of civil society organizations, and the importance of coordinated action to curb tobacco industry interference. Members underscored the significance of capacity building, regular monitoring, and community-level engagement to reduce tobacco consumption and protect vulnerable populations, particularly youth and women.

The meeting concluded with actionable recommendations and a renewed commitment to strengthen tobacco control initiatives across Uttar Pradesh. Under the leadership of the Health Department and with active participation from partners, the NTCP working group reaffirmed its vision of achieving a tobacco-free Uttar Pradesh through collaboration, innovation, and effective policy enforcement.



MONTHLY ELDERLY GATHERINGS



As part of the Geriatric Care Project supported by HCL Foundation, UPVHA has been consistently organizing monthly elderly gatherings that bring joy, care, and togetherness to senior citizens. These gatherings serve as a safe space where elderly participants can engage in meaningful activities, interact with peers, and share their experiences in a supportive environment.

Each session is designed to combine fun and wellness. Activities such as balloon games, colouring, music, dance, and storytelling are conducted to stimulate both the mind and body. Gentle recreational exercises, along with lively interactions, help improve their mood, reduce stress, and encourage active participation. These small yet impactful engagements bring visible smiles and create a positive atmosphere.

The gatherings are made more special with the involvement of UPVHA staff, volunteers, and HCLF volunteers, who actively participate in the sessions. Their presence adds warmth and energy, fostering a sense of belonging among the elderly. Volunteers not only facilitate activities but also spend quality time listening to the life stories and wisdom shared by senior citizens, strengthening intergenerational bonds.

Most importantly, the elderly participants eagerly look forward to these monthly sessions. They often express how these gatherings break the monotony of daily life and give them a chance to relive joyful moments. The program has emerged as a community of care and happiness, reflecting UPVHA's commitment to improving the quality of life for the elderly through companionship, engagement, and respect.



PLANTATION DRIVE AT COMMAND HOSPITAL



A significant plantation drive was organized at the Army Command Hospital in Lucknow. This initiative was a joint effort by the Uttar Pradesh Voluntary Health Association (UPVHA), Army Wives Welfare Association (AWWA), Command Hospital and ONE STEP for Humanity & Nature.

The drive was a remarkable success, resulting in the creation of a dedicated herbal garden with the plantation of 300 saplings of various herbal plants. This garden is envisioned to serve as a resource for medicinal herbs and contribute to the well-being of patients and staff at the hospital.

The event received invaluable support and contributions from AWWA, One Step, Command Hospital and volunteers from Lucknow University. Their participation and dedication played a crucial role in the successful execution of the drive. Special thanks are extended to Army Officers and their wives for their guidance and active involvement and the enthusiastic volunteers for their hard work and commitment to the cause.

The plantation drive began in the early morning with a brief inauguration ceremony. The participants, including volunteers and community members, actively engaged in planting a diverse range of herbal saplings such as Tulsi, Aloe Vera, Neem, and Ashwagandha, known for their medicinal properties.

The event concluded with a note of appreciation to all the participants and supporters. The newly planted herbal garden stands as a testament to the collective effort and commitment towards a greener and healthier environment. It is hoped that this initiative will inspire similar efforts in other institutions and communities, fostering a culture of environmental stewardship and sustainability.



WORLD NO TOBACCO DAY 2024 WORKSHOP – “PROTECTING CHILDREN FROM TOBACCO INDUSTRY INTERFERENCE



On the occasion of World No Tobacco Day 2024, the Uttar Pradesh Voluntary Health Association (UPVHA), in collaboration with STCC-UP and the University of Lucknow, organized a state-level workshop on the theme “Protecting Children from Tobacco Industry Interference.” The program brought together more than 200 students, faculty members, and stakeholders to discuss the urgent need to safeguard youth from the harmful influence of the tobacco industry.

The workshop was inaugurated with a lamp-lighting ceremony and addressed by distinguished guests, including Dr. Surya Kant, HOD Respiratory Medicine, KGMU, and Dr. Rajneesh Srivastava, Pulmonologist, Max Hospital, Lucknow. Speakers highlighted the alarming statistics on tobacco use, its link to multiple cancers and diseases, and the benefits of quitting tobacco. They emphasized the importance of educating children and young people and providing social and psychological support to those attempting to quit.


Interactive activities reinforced the theme, including an online poster-making competition, distribution of millets with the message “Food, not Tobacco”, a collective pledge against tobacco use, a signature campaign, and the release of a poster showcasing the economic burden of tobacco consumption. The event concluded with a symbolic balloon release ceremony, representing the community’s resolve to let go of tobacco.



The workshop served as an inspiring platform for awareness, advocacy, and youth engagement. By mobilizing students and educators, UPVHA and its partners demonstrated their strong commitment to a tobacco-free Uttar Pradesh, setting a model for collective action against tobacco industry interference.

*TOBACCO FREE
YOUTH !*

TOBACCO FREE EDUCATIONAL INSTITUTIONS



In line with the vision of Tobacco Free Youth Campaign 2.0 across Uttar Pradesh, UPVHA, in collaboration with the State Tobacco Control Cell (STCC), organized a sensitization workshop on Tobacco-Free Educational Institutions (ToFEI) at Indira Gandhi Pratishthan, Lucknow.

The workshop was chaired by Dr. Roshan Jacob, Commissioner, Lucknow Division, Uttar Pradesh, and brought together more than 400 principals and teachers from various schools and colleges. The program aimed to build awareness about the harmful effects of tobacco, strengthen compliance with COTPA 2003 provisions, and equip educators with the knowledge and tools to make their institutions tobacco-free.

Speakers emphasized the critical role of teachers as change-makers in protecting children and youth from tobacco initiation. Sessions covered the nine ToFEI criteria, effective monitoring mechanisms, and strategies for integrating tobacco control messages into school activities and community outreach. Participants also shared their experiences and challenges in implementing ToFEI guidelines at the ground level.

The workshop concluded with a collective pledge by principals and teachers to enforce strict compliance with ToFEI guidelines in their institutions and to act as role models in promoting a healthy, tobacco-free lifestyle among students.

This initiative marks a significant step towards building a strong network of tobacco-free educational institutions in Uttar Pradesh, ensuring that the next generation is safeguarded from the harmful influence of tobacco.



COMMUNITY SESSIONS WITH THE ELDERLY



UPVHA strongly believes that caring for the elderly goes beyond physical health — it must also encompass mental well-being, social engagement, and emotional support. To address these needs, a series of community sessions were organized for elderly residents of urban slums, creating safe and joyful spaces where they could interact, participate, and feel valued.

The sessions were carefully designed with a mix of recreational, educational, and therapeutic activities. Elderly participants engaged in balloon games, coloring activities, storytelling, music, and light exercises, which encouraged creativity, laughter, and gentle movement. Health talks and discussions on healthy lifestyle practices, better nutrition, stress management, and positive mental health were also conducted to empower them with practical advice for everyday living.

These sessions not only offered entertainment but also served as a platform for social connection. Many elderly individuals in urban slums live in conditions of neglect and loneliness; through these gatherings, they had the opportunity to share stories, relive memories, and build a sense of belonging within the community. Volunteers and facilitators observed how such simple activities created visible joy — participants were more relaxed, engaged, and energized. Some remarked that they “felt young again,” while others expressed that the sessions reduced feelings of isolation and made them feel cared for.

By combining fun-filled engagement with health guidance, UPVHA reinforced its holistic approach to elderly care. The initiative not only supported physical and emotional resilience but also strengthened community solidarity, demonstrating that a dignified, active, and happy life is possible for the elderly when society invests in their well-being.



STATE-LEVEL WORKSHOP ON 'PROTECTING CHILDREN FROM TOBACCO INDUSTRY INTERFERENCE'



On May 30, 2024, UPVHA, in collaboration with NTCP Uttar Pradesh and KGMU, organized a state-level workshop on the theme "Protecting Children from Tobacco Industry Interference" at KGMU, Lucknow. The event brought together leading experts including Dr. Mukesh Matanhelia (SNO, NTCP), Dr. Surya Kant (HOD Respiratory Medicine, KGMU), Mr. Satish Tripathi (State Consultant, NTCP), Dr. Ankit Kumar (KGMU), and Mr. Vivek Awasthi (Executive Director, UPVHA).

Speakers highlighted the alarming scale of tobacco use in India—270 million users, 22 million adolescents, and 1.35 million deaths annually—while stressing the urgent need for strict enforcement of COTPA, stronger awareness campaigns, and community engagement. The workshop also showcased government efforts and statewide activities under World No Tobacco Day.

This platform united health experts, policymakers, and community leaders in reaffirming their commitment to protecting children and building a tobacco-free Uttar Pradesh.



STATE-LEVEL MEETING ON STRENGTHENING TOBACCO CESSATION SERVICES AND BRIEF ADVICE



UPVHA, in collaboration with the State Tobacco Control Cell (STCC), Uttar Pradesh, organized a state-level meeting at Swasthya Bhawan, Lucknow to strengthen tobacco cessation services and integrate “Brief Advice” across primary healthcare facilities.

The meeting was chaired by Dr. Brijesh Rathor, Director General Medical and Health Services, Uttar Pradesh, along with the presence of Dr. B.P. Singh Kalyani, Director of Health, the State Nodal Officer (NTCP), the State Nodal Officer (Mental Health), and members of the NTCP team. Senior officials emphasized the urgent need to scale up cessation services, particularly in light of the high prevalence of tobacco use in the state.

Key discussions centered on:

- Mainstreaming “Ask, Advise, and Refer” (AAR) brief advice interventions at the primary healthcare level.
- Strengthening linkages between the NTCP and national programs, including NTEP, to implement the TB–Tobacco Collaborative Framework.
- Building capacities of frontline health workers and counselors for effective delivery of cessation services.
- Streamlining reporting and monitoring mechanisms to ensure accountability and sustainability of services.

The meeting also highlighted the importance of creating an enabling environment for cessation services through policy support, technical guidance, and multi-sectoral collaboration. Stakeholders acknowledged UPVHA’s role in providing technical support and advocacy to institutionalize cessation services within the state’s healthcare system.

The deliberations concluded with a shared commitment to prioritize tobacco cessation as a public health imperative and to build an ecosystem that empowers communities to lead healthier, tobacco-free lives.

PLANTATION DRIVE AT SCHOOL IN LUCKNOW



UPVHA organized a plantation drive at a primary school in Lucknow with the objective of fostering environmental awareness and instilling the values of sustainability in young learners. The initiative was designed not only to green the school campus but also to educate children on the importance of trees in maintaining ecological balance and combating climate change.

During the event, 100 saplings of diverse species were planted within the school premises. Teachers, the school principal, students, and volunteers came together to actively participate, making the activity a collective effort. Their enthusiasm reflected a shared sense of responsibility towards protecting and nurturing the environment.

The plantation drive also served as a practical learning experience for the students. Through hands-on involvement, children learned about the role of trees in providing clean air, conserving water, supporting biodiversity, and creating a healthier atmosphere. Teachers emphasized the importance of caring for the saplings, helping students understand that long-term environmental protection begins with small but consistent actions.

By integrating education with action, the plantation drive highlighted UPVHA's commitment to linking community participation with environmental conservation. The event not only beautified the school surroundings but also created a living classroom where values of sustainability and conservation will continue to grow alongside the saplings, inspiring students to become future champions of the environment.



MAHA KUMBH MELA 2025



The Maha Kumbh Mela 2025 at Prayagraj, one of the world's largest spiritual gatherings, provided a historic opportunity to integrate health awareness with faith. Uttar Pradesh Voluntary Health Association (UPVHA), in close collaboration with the State Tobacco Control Cell (STCC), Mela Prabhari, Swachh Bharat Mission (SBM), and other key stakeholders, undertook a series of impactful initiatives to promote the vision of a Tobacco-Free Maha Kumbh Mela.

Key Efforts and Achievements:

Strategic Awareness Campaigns:

- Banners, posters, and signage declaring "No Tobacco Zone" were prominently displayed across the Mela premises to sensitize millions of pilgrims about the ill effects of tobacco.

Pamphlet Distribution & Community Mobilization:

- Thousands of awareness pamphlets were distributed among pilgrims, spreading messages on the harmful impact of tobacco use and offering guidance on quitting.

Audio-Visual Awareness:

- Regular audio announcements were made throughout the Mela, reinforcing the call for a tobacco-free environment and reaching large gatherings effectively.

Engagement of Stakeholders:

- Religious leaders, health professionals, and government officials actively extended their support by addressing the public and motivating them to renounce tobacco.

Health Department & Experts' Participation:

- Doctors and health experts participated by sharing scientific insights into the dangers of tobacco consumption and encouraging healthier lifestyles.

Collaborative Approach:

- The campaign was made successful through coordinated efforts between UPVHA, STCC, Mela Prabhari, SBM officials, and local administration, ensuring wide visibility and public participation.

Impact:

The collaborative campaign not only heightened awareness among millions of devotees and visitors but also strengthened the commitment of the Government of Uttar Pradesh and civil society to build a sustainable, tobacco-free environment. The initiative symbolized how faith, governance, and public health can come together to inspire positive social change.

UPVHA was honored to participate in the EFICON Conference, where our team showcased the organization's digital innovations in tobacco control. The session highlighted how technology-driven solutions—such as digital awareness tools, data-driven monitoring systems, and innovative communication strategies—are being leveraged to strengthen tobacco cessation efforts and expand outreach across Uttar Pradesh.

By sharing these experiences on a national platform, UPVHA emphasized the importance of integrating digital health interventions into public health programs to ensure wider accessibility, stronger monitoring, and measurable impact.



Empowering Youth: On 29th May, 2024, a Health Talk was organised at Max Super Speciality Hospital, Lucknow in collaboration with U. P. Voluntary Health Association on Protecting Children from Tobacco Industry Interference. Seminar Featuring Chief Guest Dr. Mukesh Matanhelia, SNO, NTCP, Guest of Honour Mr. Satish Tripathi, State Consultant, NTCP, and Distinguished Speakers Dr. Shashank Chaudhary, Oncology Surgeon, MSSH, Dr. Rajneesh Srivastava, Pulmonologist, MSSH and Mr. Vivek Awasthi, Executive Director, UPVHA.

Speakers highlighted the alarming scale of tobacco use in India—270 million users, 22 million adolescents, and 1.35 million deaths annually—while stressing the urgent need for strict enforcement of COTPA, stronger awareness campaigns, and community engagement.



On the occasion of World Hypertension Day, UPVHA organized special sessions with the elderly in urban slums, focusing on awareness, guidance, and early detection. Blood pressure check-ups were conducted, and participants were educated on lifestyle practices to manage and prevent hypertension.

This initiative aimed at empowering vulnerable communities with knowledge and access to basic health screening, ensuring healthier lives for the elderly population.



The District Tobacco Control Cell, Gorakhpur organized a Stakeholder and Law Enforcement Training Workshop on 24th February 2025 at the Annexe Bhawan Auditorium. The workshop saw the participation of 274 officers, including police officials, food safety authorities, doctors, ANMs, teachers, and other key stakeholders.

The sessions focused on strengthening compliance with tobacco control laws, enhancing inter-departmental coordination, and empowering officers to actively contribute towards tobacco-free jurisdictions.

Participants gained a clear understanding of their responsibilities in law enforcement and committed to supporting tobacco control initiatives in Gorakhpur.



On 7th March 2025, a meeting of the District Coordination and Monitoring Committee was held in Jhansi under the chairmanship of the ADM. The session was attended by the District Consultant and Regional Coordinator, UPVHA, along with 16 officers from key departments including Home, Education, Social Welfare, Labor, Municipal Corporation, and Income Tax.

The meeting focused on NTCP guidelines, with discussions on implementing Tobacco-Free Educational Institutions, Tobacco-Free Villages, and public place enforcement.

Members engaged in an in-depth review of COTPA 2003 enforcement, progress on tobacco-free villages, and identified challenges with strategies for stronger implementation in the future.



The District Tobacco Control Cells of Barabanki and Hardoi jointly organized a Law Enforcement Training Workshop, chaired by the Additional Superintendent of Police. The session was attended by State Consultant Mr. Satish Tripathi and Mr. Vivek Awasthi (UPVHA), who delivered a detailed presentation on the burden of tobacco, its harmful effects on community health, and the crucial role of departments in ensuring compliance with COTPA-2003.

The workshop also highlighted the use of other legal provisions such as the Juvenile Justice Act, Food Safety Acts (2006 & 2011), and PECA-2019 in strengthening tobacco control measures. Further, compliance with Tobacco-Free Educational Institutions (ToFEI) guidelines at the district level was discussed to ensure effective enforcement.



Under the Geriatric Care Project, UPVHA volunteers have been conducting door-to-door health check-ups for the elderly in urban slum communities. These visits ensure that senior citizens who are unable to travel to health camps or clinics still receive timely medical attention and basic care at their doorstep.

During these check-ups, volunteers monitor vital health parameters such as blood pressure, sugar levels, and general health conditions, while also providing guidance on nutrition, lifestyle improvements, and mental well-being.

The initiative not only improves access to healthcare for vulnerable elders but also strengthens trust within the community. Many elderly participants and their families have expressed gratitude, as this personalized approach makes them feel cared for and supported.



UPVHA organized engaging fun game activities with elderly residents in urban slum communities. The sessions included light recreational games such as balloon play, musical chairs, and memory-based activities specially designed to be safe, joyful, and inclusive for seniors.

These fun-filled activities not only brought smiles to their faces but also helped in improving their mental well-being, social interaction, and physical activeness. The games created a cheerful atmosphere where elderly participants enjoyed themselves freely, leaving behind stress and loneliness.



UPVHA organized small plantation drives with elderly community members. Tulsi, Aloe Vera, and other medicinal plants were planted together, symbolizing care for both health and the environment.

The activity gave the elderly an opportunity to connect with nature, share traditional knowledge about plants, and promote a sense of responsibility toward the environment. It also served as a therapeutic engagement, encouraging them to adopt greener and healthier lifestyles.





On 11 Feb 2025, the District Tobacco Control Cell, Aodha organized a Stakeholder Training Workshop with the Education Department, the ANMTC Adoni, Dahanu, Aodha. The workshop was held under the chairmanship of the District Nodal Officer.

A total of 54 participants, including ABSA official, Head Master, and Assistant Teacher, attended the training. The session focused on enhancing awareness about tobacco control and the effective implementation of Tobacco Free Educational Institution (ToFEI) guidelines in schools.



Law Enforcement Training Workshop was organized in Lucknow, chaired by the Additional Superintendent of Police. The session was attended by SA and Con. I. A. M. Saikat and M. Vikas (UPVHA), who delivered a detailed presentation on the burden of tobacco, its harmful effects on community health, and the crucial role of departments in ensuring compliance with COTPA 2003.

The workshop also highlighted the role of other legal provisions such as the Juvenile Justice Act, Food Safety Act (2006 & 2011), and PECA 2019 in enhancing tobacco control measures. Further, compliance with Tobacco Free Educational Institution (ToFEI) guidelines was discussed to ensure effective law enforcement.

A one-day SA and LE Liaison for NTCP was held from all districts of Uttar Pradesh, organized by NHM UP in Lucknow. The liaison brought together the District Collector, Social Worker, Councillor, District Officer, and Finance Officer to enhance the understanding of operational and implementation issues under the National Tobacco Control Programme (NTCP).

UPVHA provided technical support to STCC UP and NHM UP by preparing the action plan and presentation, ensuring a coordinated and impactful training program.

More than 150 officials participated in the liaison, enhancing their knowledge, skill, and commitment to the effective implementation of tobacco control initiatives across the state.



For the prevention of HIV infection in Ambedkar Nagar, peer educators working with the identified communities at the regional level contacted each identified HRG (High-Risk Group) and provided them with condoms as per their requirement. During this interaction, they were advised to always use a condom with every sexual partner in order to protect themselves from infections transmitted through sexual activity. At the same time, they were also sensitized about HIV infection, informed about the symptoms and preventive measures of other sexually transmitted diseases, and educated on the benefits of using condoms.



The identified High-Risk Groups (HRGs) were linked to HIV testing and regular health check-ups to ensure early detection and timely care. Those who were found to be suffering from sexually transmitted infections (STIs) were provided with appropriate medicines, treatment, and follow-up support. Alongside treatment services, continuous counselling sessions were held to encourage safe practices, with a strong emphasis on using condoms consistently during every sexual encounter. This not only helps in protecting their own health but also prevents the risk of HIV and STI transmission within the community.

The activity further aimed to build awareness about the long-term benefits of preventive measures, enabling HRGs to adopt healthier lifestyles and reduce vulnerability to infections.



At the project office-based Drop-In Centre (DIC), various recreational and cultural activities were organized for the HRGs (High-Risk Groups) as per their interest. The participants engaged in entertainment through television, singing, dancing, and other group activities. They also showcased their talents by performing traditional dances, songs, and cultural programs, creating a joyful and participatory environment that promoted bonding and peer support.

Along with these recreational activities, important awareness sessions were conducted. HRGs were sensitized about sexually transmitted infections (STIs) and HIV/AIDS—including modes of transmission, symptoms, prevention methods, and the importance of timely treatment. This combined approach of entertainment with education helped in keeping the community actively engaged, while also equipping them with knowledge to safeguard their health and well-being.



On 27th December 2024, the District Tobacco Control Cell, Azamgarh organized a PRI Training Workshop at the Chief Medical Officer Auditorium under the chairmanship of the District Nodal Officer. A total of 42 PRI members and Gram Pradhans participated in the session.

Participants were oriented on Tobacco-Free Village (TFV) and Tobacco-Free Gram Panchayat (TFGP) Guidelines and became aware of their responsibilities in ensuring effective compliance at the community level.



An orientation of stakeholders was organized at the UPSRTC Training Centre, Kanpur, chaired by the Training In-charge and facilitated by the District Consultant, Kanpur Nagar, along with the Regional Coordinator, UPVHA Lucknow. The session highlighted the responsibilities of different departments in tobacco control, focusing on the importance of tobacco-free public places.

Special emphasis was given to the role of UPSRTC conductors and drivers in ensuring compliance and raising awareness among commuters.

The workshop was attended by 90 participants, who gained valuable insights into their roles in curbing tobacco use and protecting public health.



The District Tobacco Control Cell, Azamgarh organized a Stakeholder Training Workshop with the participation of 64 officers from key departments. UPVHA provided the technical support.

Participants were sensitized about their responsibilities in ensuring compliance with tobacco control laws and supporting the creation of tobacco-free jurisdictions.



A state-level orientation programme on Tobacco-Free Educational Institutions (ToFEI) was organized by UPVHA in collaboration with the Department of Secondary Education and STCC UP. The workshop aimed to equip college principals with the knowledge and tools required to effectively implement ToFEI guidelines in their respective institutions. The orientation highlighted the importance of creating a tobacco-free learning environment to safeguard the health of students and staff, while also strengthening compliance with tobacco control laws. The session emphasized the role of educational institutions as catalysts in shaping a tobacco-free generation.



To mark World AIDS Day 2024 and spread awareness about HIV/AIDS prevention and care, an awareness rally was organized with enthusiastic community participation. The rally was flagged off from the Women's Hospital, Jalalpur by Chief Medical Officer Dr. Rajkumar, and passed through Sarai Chowk, Yadav Chauraha, and Ramgarh Road, before concluding at the Nagpur Community Health Centre (CHC).

Following the rally, an awareness seminar was conducted at the Community Health Centre. The programme was anchored by TI Project Manager Mr. Sudhir Singh. Distinguished dignitaries present included District Nodal Officer & District Tuberculosis Officer, Dr. M.H. Siddiqui; ICTC Counsellor Mr. K.P. Maurya from District Hospital; and representatives from Ahana Project, Ms. Ranjana Gupta and Mr. Suresh Kumar.

During the seminar, Dr. Siddiqui highlighted critical information about HIV/AIDS transmission, prevention measures, and treatment adherence. He emphasized that with proper nutrition, regular exercise, and timely intake of ART medicines, an HIV-positive individual can lead a long and healthy life. Project Manager Mr. Sudhir Singh spoke on the history of HIV/AIDS, causes of infection, myths, misconceptions, and stigma associated with the disease, urging the community to adopt supportive and non-discriminatory behaviour towards people living with HIV.

Mr. K.P. Maurya shared district-level data on HIV prevalence and elaborated on the prevention, treatment, and care mechanisms available. Special focus was placed on HIV-infected pregnant women and children, along with detailed discussions on linking patients with ART centres for sustained treatment.

The programme concluded with a signature campaign and a candle march organized at the BDO office premises, symbolizing solidarity and collective commitment in the fight against HIV/AIDS. Overall, more than 300 people participated in the rally, seminar, and closing activities. The event not only raised awareness but also encouraged community members to break stigma, support the infected, and contribute to building a healthier, inclusive society.



On 25th November 2024, the Coordination Meeting on Vendor Licensing under the National Tobacco Control Programme was held in Mathura under the chairmanship of the Additional Municipal Commissioner. A detailed presentation was made on the progress of Tobacco Vendor Licensing (TVL) in Mathura, highlighting achievements and steps taken so far. The meeting was attended by 35 Nagar Nigam officers.

Participants gained detailed insights into tobacco harms, tobacco control laws, and their responsibilities in ensuring compliance with COTPA 2003 and TVL guidelines, strengthening enforcement at the municipal level.



Law Enforcement Training Workshop organised in Mau, Mr. Dileep Pandey (UPVHA), who delivered a detailed presentation on the burden of tobacco, its harmful effects on community health, and the crucial role of departments in ensuring compliance with COTPA-2003.

The workshop also highlighted the use of other legal provisions such as the Juvenile Justice Act, Food Safety Acts (2006 & 2011), and PECA-2019 in strengthening tobacco control measures. Further, compliance with Tobacco-Free Educational Institutions (ToFEI) guidelines at the district level was discussed to ensure effective enforcement.



As part of the programme activities on HIV/AIDS awareness and prevention, two major community events were organized on 28th August 2024.

The first awareness meeting was conducted at SVP School, Miranpura Tanda area, where members of the community, including identified HRGs (High-Risk Groups), gathered to discuss the importance of safe practices, HIV prevention, and available health services. The session was interactive, allowing participants to share their concerns and receive clarity on myths and misconceptions about HIV/AIDS. A total of 140 participants attended this programme, making it a significant step in strengthening awareness at the grassroots level.

The second event took place at the New Meeting Hall of the District Hospital, Akbarpur, Ambedkar Nagar. This session specifically engaged identified HRG members, creating a safe platform to openly discuss their health needs, challenges, and the importance of regular health check-ups and condom use for prevention of HIV and other sexually transmitted infections. The meeting was chaired by the Project Manager, who encouraged active participation and motivated the women's groups to continue adopting preventive practices and become role models within their communities.

Both sessions witnessed the presence of project staff and HRG women members from the intervention areas. The discussions not only provided valuable health information but also fostered a sense of inclusion and empowerment among the participants. In total, 134 participants joined the second event, reflecting the growing interest and acceptance of such awareness initiatives.

Together, these two meetings successfully reached over 270 individuals, strengthening community-level knowledge and reinforcing the project's objective of reducing vulnerabilities to HIV/AIDS through continuous engagement, education, and encouragement.



Under the programme, 49 health camps were conducted across hotspot areas of Ambedkar Nagar, covering regions like Semaraghat, Roshan Garh, Khanupur, Rasoolpur, and Tanda. A total of 1,106 individuals were tested for HIV, and registrations were done in Akbarpur (171) and Tanda (52) to connect high-risk populations with essential services. These efforts helped in linking vulnerable groups to the mainstream programme for continued care, treatment, and prevention.



On 24th April 2024, in collaboration with the District Panchayati Raj Department and District Tobacco Control Cell, Meerut, a health camp was organized in Village Nagli, Kithore to promote a tobacco-free environment. During the camp, doctors and health staff counseled 36 identified tobacco users and provided them with Nicotine tablets to support cessation efforts.

Outcome: The initiative created awareness across the Gram Panchayat about the screening of tobacco users and the harmful effects of tobacco consumption, motivating the community towards adopting a tobacco-free lifestyle.



On 14th May 2024, to ensure compliance with the Tobacco-Free Educational Institution (ToFEI) guidelines, the District Tobacco Control Cell, in collaboration with UPVHA, organized an awareness program and Yellow Line campaign at Jafarganj Government Inter College, Ambedkar Nagar. The campaign focused on sensitizing both teachers and students about the harmful effects of tobacco and the importance of maintaining a tobacco-free learning environment. A total of 76 participants, including all teachers and students, actively engaged in the session.

As part of the Yellow Line campaign, no-tobacco zones were visibly marked within the school premises, serving as a reminder and commitment towards creating a safe, healthy, and supportive educational atmosphere. Teachers were also encouraged to take a proactive role in monitoring and guiding students to abstain from tobacco use.

Following the program, the institution was officially declared Tobacco-Free, setting an example for other schools in the district to follow in promoting health and well-being among young learners.



On 6th June 2024, to mark the occasion of World No Tobacco Day (WNTD), a seminar was organized at the District Education Training Institute (DIET), Mau. The program was held under the chairmanship of the Principal, with the Additional Chief Medical Officer (ACMO) as the Chief Guest, and was coordinated by the District Consultant, Mau.

The event included several impactful activities such as an oath-taking ceremony, a signature campaign, and a Yellow Line campaign, all designed to strengthen awareness and encourage action against tobacco use. A total of 110 D.El.Ed trainee students actively participated in the seminar, making it an engaging and interactive learning experience.

The program not only sensitized trainee teachers about the dangers of tobacco use and its health impacts but also highlighted their responsibilities under the Cigarettes and Other Tobacco Products Act (COTPA-2003). The initiative aimed to empower future educators to play a crucial role in creating tobacco-free educational environments and communities.



On the occasion of World No Tobacco Day (WNTD) 2024, multiple programs were organized on 30th May 2024 in collaboration with the District Panchayati Raj and Health Department to declare village Nagli Kithore, Meerut, as a Tobacco-Free Village. The activities included a health camp chaired by the MOIC and health staff, along with a street play, signature campaign, and enforcement drive.

The initiative successfully created awareness among all villagers about the ill effects of tobacco. Health checkups were conducted for community members, and enforcement action was taken against individuals found violating provisions of the COTPA Act, 2003, ensuring stronger compliance at the village level.



A meeting of the District Level Coordination Committee (DLCC) was held in Meerut, chaired by the SSP and District Magistrate. A total of 15 DLCC members participated. During the meeting, the District Magistrate gave clear instructions on strengthening enforcement of tobacco control measures.

Key directions included: ensuring compliance with Tobacco Free Educational Institution guidelines by all schools and colleges, preparing and submitting self-evaluation scorecards to the CMO office, and reporting in writing to the nearest police station if any tobacco shops were found within 100 yards of educational institutions. Even where no such shops exist, institutions were instructed to mark a 100-yard yellow line boundary. Additionally, schools were directed to install COTPA 2003 signboards at each entrance gate.



On 16th July 2024, the District Tobacco Control Cell Mau organized a monthly meeting at CHC Ghosi under the chairmanship of the MOIC. A total of 46 ANMs and ASHAs participated and were sensitized on their role in tobacco control, the harms of tobacco use, and compliance with the COTPA Act (2003).

Participants gained clarity on their responsibilities in spreading awareness and supporting tobacco control initiatives at the community level.



A divisional-level meeting was held under the chairmanship of the Commissioner, Lucknow Division, to review progress and provide directives on tobacco control initiatives. Key instructions were issued on the implementation of Tobacco Vendor Licensing (TVL), the removal of surrogate advertisements, and strict compliance with Tobacco-Free Educational Institutions (ToFEI) guidelines.

The meeting reinforced inter-departmental coordination and accountability to ensure effective enforcement of tobacco control measures across the division.



On 31st July and 8th August 2024, training workshops for law enforcers were organized in collaboration with the police departments under the chairmanship of the Senior Superintendent of Police (SSP) at Police Line, Ambedkar Nagar, and Etah. A total of 158 police officers participated in these sessions.

The workshops focused on strengthening the understanding of the COTPA Act 2003 and equipping officers with the knowledge and skills required to effectively enforce tobacco control laws as per government guidelines.

All participating officers gained clarity on their roles and responsibilities in the tobacco control program, ensuring stronger enforcement and compliance at the district level.



Health Professional Training Workshop was organized under the National Tobacco Control Programme (NTCP) at the CMO office auditorium, Jaunpur. The program was presided over by Additional Chief Medical Officer Dr. Rajeev Kumar.

During the workshop, all doctors under the RBSK Program were sensitized about the provisions of the COTPA Act (2003) and the Tobacco-Free Educational Institutions (ToFEI) program. In addition, paramedical staff were oriented on the harmful effects of tobacco use on children's health and their critical role in promoting tobacco-free environments.

A total of 75 participants, including doctors, paramedical staff (RBSK), ACM, and Dy CMO, attended the session.

All participants gained awareness about the ill effects of tobacco on children's health and the importance of ensuring strict compliance with ToFEI guidelines.



A divisional review meeting chaired by the Commissioner, Lucknow Division, brought together 40 key officials, including District Magistrates, CDOs/ADMs from six districts, Commissioner Municipal Corporation, SNO NTCP, JD Education, and DIOS. The meeting focused on TVL implementation, ToFEI compliance, elimination of surrogate advertisements, and strict enforcement of COTPA-2003.

As an outcome, the Commissioner issued orders to eliminate surrogate advertising, ensure all educational institutions are tobacco-free, and strengthen TVL implementation. Additionally, directives were given to reform municipal policies to stop empaneling media agencies promoting surrogate tobacco ads.





In a significant step towards creating healthier communities, Gram Panchayat Nangli Kithore, Meerut, was formally declared Tobacco-Free in the presence of senior district officials and community representatives. The declaration was made jointly by the Chairperson, Zila Panchayat, and district-level officers, marking a strong commitment to protect the health and well-being of rural populations.

The event witnessed the active participation of key officials, including the Chief Medical Officer (CMO), Block Development Officer (BDO), Assistant Development Officer (ADO) Panchayat, frontline health workers such as ASHA, ANM, AWW, CHO, and program management staff including BPM, DEM, DPM, DCPM, as well as MOIC, dental doctors, and local political representatives. Their presence reflected the collaborative approach needed to ensure effective implementation of tobacco control measures at the grassroots level.

During the program, awareness was raised among the villagers about the harms of tobacco use, the importance of creating a safe environment for children and youth, and the long-term health and economic benefits of a tobacco-free lifestyle. Community health workers were also appreciated for their efforts in mobilizing people and ensuring behavioral change.

This initiative sets a model for other villages in Meerut district and across Uttar Pradesh, demonstrating how multi-stakeholder collaboration and community participation can help achieve the goal of Tobacco-Free Villages (TFVs). The declaration of Nangli Kithore as tobacco-free is not only a milestone achievement but also a motivating example for other Gram Panchayats to follow.



Under the Tobacco Free Youth Campaign 2.0, extensive efforts were made across various districts of Uttar Pradesh to ensure compliance with Tobacco Free Educational Institution (ToFEI) guidelines. Schools were sensitized on COTPA-2003 provisions, yellow line campaigns were conducted, and awareness sessions were organized with teachers and students. As a result, many institutions adopted self-evaluation scorecards, displayed signboards, and strengthened their commitment to remain tobacco-free, ensuring a healthier learning environment for children and youth.



ENVIRONMENTAL CONSERVATION

We are deeply grateful to Forest Department UP, LDA Department, and Lucknow Smart City (MCL) for recognizing and honoring our Executive Director, Mr. Vivek Awasthi, as a speaker at the recent event dedicated to the protection of nature and wetlands. His address highlighted the urgent need to conserve wetlands as vital ecosystems that sustain biodiversity, regulate water cycles, and mitigate climate change impacts.

As an organization, UPVHA is proud to stand alongside government agencies and partners in advancing environmental protection. This platform not only amplified our voice in advocating for wetland conservation but also reaffirmed our commitment to integrating ecological sustainability into our broader health and development agenda.



UPVHA was honored to be invited as a guest speaker at the Ganga Utsav, organized by the Forest Department, Water Department, and Namami Gange. The session highlighted the critical importance of environmental and water conservation, emphasizing the role of communities in protecting rivers and natural ecosystems.

Through this platform, UPVHA reaffirmed its commitment to raising awareness on sustainable resource management and inspiring collective action to preserve the Ganga and safeguard the environment for future generations.



Protecting wetlands is vital for safeguarding biodiversity, conserving water resources, and combating climate change. UPVHA actively participated in a wetland conservation session and bird talks organized in collaboration with the Forest Department and Lucknow Development Authority at CG City Wetland, Lucknow.

The program highlighted the ecological importance of wetlands and inspired participants, especially youth, to take meaningful steps toward a sustainable and resilient future.



UPVHA, in collaboration with Integral University, organized a Bird Walk session to celebrate biodiversity and foster environmental awareness among students. The initiative aimed to connect young learners with nature, encourage appreciation of local flora and fauna, and highlight the importance of protecting natural habitats.

Through interactive observation and guided discussions, students learned about different bird species, their ecological roles, and the urgent need for conservation efforts. The walk not only created awareness but also inspired students to become active ambassadors for biodiversity protection and sustainable living.



On the occasion of World Environment Day, UPVHA in collaboration with Navreeta Foundation organized an awareness program focused on this year's theme "Land Restoration, Desertification and Drought Resilience." The event highlighted the urgent need to protect ecosystems, restore degraded land, and take collective action against the challenges posed by climate change.

As part of the program, a plantation drive was carried out to promote greener surroundings and encourage community participation in environmental protection. Participants were sensitized on how small, consistent actions like tree plantation and sustainable practices can make a significant impact in combating climate change and ensuring a healthier planet for future generations.



UPVHA distributed herbal plants such as Tulsi and Aloe Vera to elderly residents of urban slums, highlighting their health benefits and role in promoting well-being. Alongside the distribution, sessions were held on healthy living, mental well-being, and lifestyle practices to encourage better self-care.

This initiative combined traditional knowledge with practical advice, empowering the elderly to adopt simple, natural ways to improve their health and quality of life.



[illegible]

ORDERS/ LETTERS/ NOTIFICATIONS

[illegible]

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान
रथ-घोषणा प्रमाण-पत्र

शिक्षण संस्थान का नाम कैम्ब्रिज एजुकेशन सोसाइटी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली

शिक्षण संस्थान का पता समस्तकान्त भवन, टाउनशिप, इन्दौर, मध्य प्रदेश

मैं (प्रधानाचार्य का नाम) प्रो. पी. ए. गुरा

ज्याणित करता हूँ कि राष्ट्रीय तम्बाकू विषमता कार्यक्रम की अवधि की 101वीं-2003 की यात्रा - 68 का उपलब्ध शिक्षण संस्थान में पूर्ण रूप से अनुपस्थित किया गया है। तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (T.M.F.E) के शिक्षा-विदेशी के अनुपस्थित सहित कोई/द्वारा लेखन प्रदर्शित किया गया है। साथ ही, जगदलाल अभियान का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से छात्र/छात्राओं को तम्बाकू-लेखन से होने वाले दुष्परिणामों एवं तम्बाकू शोधन से काटने से अवगत कराया गया है। छात्र/छात्राओं के साथ-साथ शिक्षण संस्थान में कार्यरत सभी शिक्षकगण/कर्मचारियों को तम्बाकू सेवन नहीं करने की राय दी जाती है।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि शिक्षा, कर्मचारियों एवं छात्रगण के द्वारा शिक्षण संस्थान वितरित की पीली लाइन (Yellow Line) कोमल के माध्यम से "तम्बाकू मुक्त संस्थान" घोषित किया जाता है।

अगर कोई व्यक्ति/दुष्प्रभावदार शिक्षण संस्थान वितरित की 100 यात्रा के माध्यम से तम्बाकू-चायदर का सेवन करता या करता हुआ पकड़ आदेश तो उसके विरुद्ध ही ओ.टी.वी.ए-2003 की दिशानिर्देश भारतीय सल्ट विकीटो नाम (बाल देशभक्त एवं संस्थान) अधिनियम-2015 की धारा-27 से तहत विवेकपूर्ण कार्यवाही की जाएगी।

प्रमाणित करता हूँ
प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर
शिक्षण संस्थान का मुहर
प्रधानाचार्य

दिनांक : 26/10/2024

कर्मचारी नाम का हस्ताक्षर
 कार्यालय का मुहर

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

ORDERS/ LETTERS/ NOTIFICATIONS

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

विज्ञापन संख्या राज अधिनियम
आरक्षण

PHOTOGRAPHS



PHOTOGRAPHS



PHOTOGRAPHS



PHOTOGRAPHS




PHOTOGRAPHS





*MAKING HEALTH A
REALITY FOR ALL*





UP VOLUNTARY HEALTH ASSOCIATION



www.upvha.org